



केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन  
मुख्यालय कार्यालय, प्रयागराज  
जनसम्पर्क विभाग

संख्या :

कोर/जी/पीआर/010 भाग-XXV

08.03.2021

दिनांक

प्रेस विज्ञप्ति

रीवो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

वैसे तो हर दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन ने हर साल 08 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष महिला दिवस 2021 की थीम "चूज टू चैलेंज" रखी गई है। इस थीम का अर्थ है स्वयं के कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार होना।

केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, प्रयागराज मुख्यालय के आरोही प्रेक्षागृह में दिनांक 08 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन रीवो के तत्वाधान में किया गया। यह दिवस विश्वभर में वैश्विक त्योहार के रूप में महिलाओं के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक उपलब्धियों से समाज में उनके योगदान को दर्शाते है।

उन महिलाओं जो व्यक्तिगत और व्यवसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करती है इसमें कोर में कार्यरत महिलाएँ भी शामिल है जो कोविड-19 महामारी के बावजूद कठिन परिश्रम द्वारा कोर के विद्युतीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसी 10 महिलाओं को आज सम्मानित किया गया।

रेल विद्युतीकरण महिला कल्याण संगठन, (रीवो) प्रयागराज, समाज में महिलाओं के उत्थान, महिला सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलंबन के लिए लगातार प्रयास करता रहा है। आज इस शुभ अवसर पर रीवो अध्यक्ष श्रीमती रचना सिंह, और उनकी टीम द्वारा कोर में कार्यरत सभी महिला कर्मचारियों को उपहार प्रदान कर महिला दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि महिलाएँ पुरुषों की तरह हर चीज में समान अवसर की हकदार है। दुनिया लिंग संतुलन हासिल करने की ओर बढ़ रही है।

इस अवसर पर कोर के महाप्रबन्धक श्री यशपाल सिंह, सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष एवं रीवो की सभी महिला पदाधिकारी भी उपस्थित रही।

(अमिताभ शर्मा)

उप महाप्रबन्धक (पीआर)

कोर/प्रयागराज